

MMSY (NDB) Bt. 100

M.B. No - 533

21-2-2

Schedule XLY Form No. 134.

हर्दिये - चौक से 370 रु. 07/14 रु.

प्रमत्त. गोशरी

DIVISION

प्रमत्त. गोशरी

SUB-DIVISION

Measurement Book

Ranjit Kumar

प्रमाणित किया जाता है कि इस
मापी पुस्त में मशीन द्वारा अंकित
कुल - 100 (एक सौ) पन्ने हैं जिसे
श्री हमेशा कुमार सतश. सहायक
अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल गोगरी का
निर्गत किया जाता है।

Akmal
Executive Engineer
R.W.D. Works Div.
Gogri
Back
9.2.22

Sch. XLV - Form No. 134

प्रमंडल गोगरी DIVISION

अवर प्रमंडल गोगरी SUB-DIVISION

Measurement Book

Re-issued Measurement Book
Assistant Engineer, R.W.D. Works
Sub-division Gogri,

Akmal
Executive Engineer
R.W.D. Works Div.
Gogri

Name of Officer

30/09/23

Name of Work-
 Situation of Work-
 Agency by which work is executed-
 Date of Measurement-
 No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work -					
Haripur chowk to Grl. Bandh					
Name of Agency -					
Rajni Kumari					
Add -					
Al-Mali, P.O. & P.S. Beldaur					
Distt - Khagaria (Bihar)					
Agreement No. -					
21SBD/2021-2022					
Date of Start -					
08.02.2022					
Date of Completion -					
07.02.2022					

Record measurement

Date -

H.F. current - 1.0703.1000mmφ

1. Elu in excavation for

found? of structure etc.

do-do all comp. job -

$$2 \times 6.450 \times 1.400 \times 1.500 = 27.89m^3$$

Below pipe

$$1 \times 4.850 \times 1.530 \times 0.365 = 2.71m^3$$

$$29.80m^3$$

2. pvg. M.C. P.C.C. (1:2.5:5)

or levelling course etc -

do-do all comp. job -

$$2 \times 6.450 \times 1.400 \times 0.150 = 2.71m^3$$

Below pipe

$$1 \times 4.931 \times 1.530 \times 0.250 = 1.89m^3$$

Less

$$0.250 \times 0.7857 \times (1.230)^2 \times 5.496 = 1.03m^3$$

$$2.96m^3$$

Continuation

Name of work:-

2nd year maintenance

Name of work:- maintenance of
road from Haripur Chaur to
W.N. Boudh

Name of Agency:- Ramji
Kumari

Agg no:- 21855/2021-2022

Date of commencement:-
07-02-2023

Actual Date of completion:-
6/6/2022

Date of entry:- 10-7-2024

Continuation

Abstract of cost

59

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(1) Restoration of rain					
- Cuts					- all work 205
Ch vide in dws m.B					
P.no (56) Item no (1)					
= 66.54 m ³					
@ 404.06/m ³					Rs 26886 =
(2) Maintenance of earth					
/ Shoulder stripping of					
excess soil - all work					
Job					
Ch vide in dws m.B					
P.no (56) Item no (2)					
202.40 m ²					@ 66.54 m ² Rs 13468 =
(3) Water repair work					
Bituminous surface with					
20 mm pebbles - all work					
Job					
Ch vide in dws m.B P.no					
(57) Item no (3)					28.08 m ²
@ 274.22/m ²					Rs 7695 =
(4) Maintenance of earth					
drains					
Ch vide in dws m.B					
P.no (57) Item no (4)					
700 m ²					@ 2.79/m ² Rs 1953 =
(5) Maintenance of Hume					
pipe culvert					

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
at vide in this m.B. p.no					
(57) item no (26) 24 no					
@ 11.66 SB/each					11662
(6) maintenance of slab culvert					
at vide in this m.B.					
p.no (57) item no (6)					
= 1 no					
@ 2394.96/each					2395
(7) maintenance of Road sign					
at vide in this m.B. p.no					
(57) item no (7) 0.134					
@ 1104.58/km					144 = 144
(8) maintenance of 200 m and 100 m stone					
at vide in this m.B.					
p.no (57) item no (8)					
= 0.17 km					
@ 637.66/km					1082
(9) Cutting of branch of tree and shrubs					
at vide in this m.B.					
p.no (58) item no (9)					
= 2 no					
@ 113.64/each					2272
(10) white washing					

[illegible]